



(uten bilder)


|| nivå 4

hindi / bokmål

Nandani

Wiehan de Jager

Zulu folktale



Honningguidens hevn

हनीगाइड का बदला



# Barnebøker for Norge

[barnebok.no](http://barnebok.no)

हनीगाइड का बदला / Honningguidens hevn

Skrevet av: Zulu folktale

Illustrert av: Wiehan de Jager

Oversatt av: Nandani (hi), Espen Stranger-


Johannessen (nb)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) og er videreformidlet av Barnebøker for Norge ([barnebok.no](http://barnebok.no)), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons

[Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens.](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no)

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no>



यह कहानी है गेड, एक हनीगाइड और एक लालची युवक गिंगइल की। एक दिन जब गिंगइल शिकार के लिए बाहर गया था तो उसने गेड की आवाज़ सुनी। गिंगइल के मन में शहद के बारे में सोच कर पानी आ गया। वह रुक गया, उसने ध्यान से सुना और टूटने लगा, जबतक कि उसे वह चिड़िया अपने सर के ऊपर डालियों में बैठी नहीं दिख गया। “चीटिक, चीटिक, चीटिक,” एक से दूसरे पेड़, और अगले पेड़ पे जाते हुए चिड़िया जोर से बोला। “चीटिक, चीटिक, चीटिक,” वह रुक रुक कर बोला, यह सुनिश्चित करते हुए कि गिंगइल उसके पीछे आ रहा है।

...


Dette er historien om Ngede, honningguiden, og en grådig ung mann ved navn Gingile. En dag mens Gingile var ute på jakt, kalte Ngede på ham. Gingile fikk vann i munnen ved tanken på honning. Han stoppet og lyttet oppmerksomt, og lette til han så fuglen i grenene over hodet sitt. “Tsjitikk, tsjitikk, tsjitikk”, kvitret den lille fuglen idet den fløy til det neste treet, og det neste. “Tsjitikk, tsjitikk, tsjitikk”, kallet han, og stoppet innimellom for å forsikre seg om at Gingile fulgte etter.


Efter en halvtime nådde de et stort vilt fikentre. Ngede hoppet rundt som en gal blant grenene. Han slo seg ned på en gren og strakk hodet mot Gingile som om han sa: "Her er det! Kom nå! Hvorfor bruker du så lang tid?" Gingile kunne ikke se noen bier fra under treet, men han stolte på Ngede.

...

भरीसा किया।

आधे घंटे बाद वे एक बड़े से अंजीर के पेड़ के पास पहुँचे। गेड जलियाँ में पगलों सा फुटकने लगा। फिर वह एक जाली पे बँठ गया और सर हिलाया, मानी वह कह रहा हो कि, "यहाँ है ये! आओ अब! डरना समय क्यों लगा रहे हो?" गिगिल को पेड़ पर कोई भी मधुमक्खी नहीं दिखाई, लेकिन उसने गेड पे





इसलिए गिंगइल ने अपना शिकार का सामान पेड़ के नीचे रख दिया, और कुछ सूखी टहनियां इक्कट्टा की और एक छोटी सी आग जलाई। जब आग अच्छे से जलने लगी, तो उसने आग में एक लंबी सूखी लकड़ी आग के बीच में डाल दी। यह लकड़ी जलते हुए बहुत सारा धुंआ करने के लिए जानी जाती है। उसने चढ़ना शुरू किया, जलती हुई लकड़ी का ठंडा सिरा अपने मुंह में डाले हुए।


...

Så Gingile la spydet sitt ned under treet og samlet noen tørre kvister og tente et lite bål. Da ilden brant godt, stakk han en lang, tørr kjepp inn i hjertet av bålet. Denne veden var kjent for å lage mye røyk mens den brant. Han begynte å klatre mens han holdt den kjølige enden av kjeppen mellom tennene.

जल्दी ही उसे काम में लगी मधुमक्खियाँ की मनमनाहत सुनाई देने लगी। वे पंख के तने में छेद-उतके छेदों में से अंदर-बाहर कर रही थीं। जब मिगडल छेदों के पास पहुँचा उसने लकड़ी का धुआँ वाला सिरा छेद में डाल दिया। मधुमक्खियाँ कड़बड़ा कर, गुस्से में बाहर निकलीं। वो बाहर उड़ गईं क्योंकि उन्हें धुआँ नहीं पसंद-लेकिन इससे पहले वो मिगडल की कुछ दूटें भरे डक दे गईं।

...


Snart kunne han høre summingen til de travle biene. De kom inn og ut av et hulrom i trestammen – bolet deres. Da Gingile nådde bolet, dyttet han den rykende enden inn i hulrommet. Biene for ut, sinte og klare til angrep. De fløy bort siden de ikke likte røyken – men ikke før de hadde gått Gingile noen smertefulle stikk!




और इसलिए, जब मिगडल के बच्चों ने गेट की कड़ानी सुनी, उनके मन में इस छोटी चिट्ठी के लिए सम्मान था। जब भी वो शहर लेते थे, इस बात का ध्यान रखते थे कि वो छेदों का सबसे बड़ा हिस्सा हनीगाइड के लिए रखें!

...

Og på den måten, når barna til Gingile hører fortellingen om Ngede, respekterer de den lille fuglen. Hver gang de sanke honning sørger de for å gi den største delen av voksaka til honningguiden!






जब मधुमक्खियां बाहर चली गईं, गिंगइल ने अपना हाथ छत्ते में डाला। उसने हाथ भर भर कर छत्ता निकाला, जिसमें से अच्छा शहद बह रहा था, और अविकसित मधुमक्खी के अंडे भी थे। उसने छत्ते को ध्यान से अपने कंधे पे टंगी थैली में डाला, और नीचे उतरना शुरू किया।

...

Da biene var ute, stakk Gingile hånden sin inn i bolet. Han tok ut håndfuller med tunge vokskaker som dryppet av deilig honning og var fulle av feite, hvite larver. Han la vokskakene forsiktig i veska han bar på skulderen og begynte å klatre ned fra treet.



इससे पहले कि तेंदुआ गिंगइल पे छलांग लगाता, वो हड़बड़ा कर पेड़ से नीचे आने लगा। जल्दबाज़ी में उस से एक डाल छूट गयी, वो बहुत जोर से जमीन पे गिरा, और उसका टखना मुड़ गया। वो लंगड़ाते हुए जितनी तेज भाग सकता था, भागा। उसकी खुशकिस्मत से, उसे पकड़ पाने के लिए, तेंदुआ अभी भी काफी नींद में थी। गेड, शहद का रास्ता दिखाने वाली चिड़िया ने अपना बदला ले लिया था। और गिंगइल ने अपनी सीख ले ली।


...

Før Leopard kunne svinge labben etter Gingile, skyndte han seg ned fra treet. I hastverket bommet han på en gren og landet med et høyt brak på bakken og forstuet ankelen. Han hinket videre så fort han kunne. Heldigvis for ham var Leopard fortsatt for søvning til å jage ham. Ngedede, honningguiden, hadde fått sin hevn. Og Gingile hadde fått seg en lærepenge.

निगडल वंश, धे सोचते हूँ एक उसे सामान्यतया सिनाई देने वाली मनमनाहत  
क्यों नहीं सिनाई दी। "शापद छाया पेंडं में गहराई पे है," उसने मन में सोचा। वो  
दिसरी जाली की तरफ बढ़ा। लीकन छत्ते की जाह, उसने उसने खूद की एक  
तेरेप के वेहरे की धरना पया। तेरेआ अपनी नींद बुरी तरह टटने से बडल गस्से  
में थी। उसने अपनी आँखें छोटी की, अपना मुँह खोला अपने बडल बड़े और  
निगडल जो भी कर रहा था, गीड बडल उर्चिकता से वह सब ऊँख देखा रहा था।  
गिड लंदके के पास एक पत्थर पे बैठ गया और अपने कुनाम का डंजाना करके  
था, जमीन के पास, और पास। आखिरकार निगडल पेडं के नीचे पहुँच गया।

...


Ngede så ivrig på alt Gingilie gjorde. Han ventet på at han  
skulle legge igjen en tjukk voksakke som en takkegave til  
honningguiden. Ngede svinset fra gren til gren,  
nærmere og nærmere bakken. Til slutt nådde Gingilie  
foten av treet. Ngede satt på en stein nær gutten og  
ventet på belønningen sin.




निगडल वंश, धे सोचते हूँ एक उसे सामान्यतया सिनाई देने वाली मनमनाहत  
क्यों नहीं सिनाई दी। "शापद छाया पेंडं में गहराई पे है," उसने मन में सोचा। वो  
दिसरी जाली की तरफ बढ़ा। लीकन छत्ते की जाह, उसने उसने खूद की एक  
तेरेप के वेहरे की धरना पया। तेरेआ अपनी नींद बुरी तरह टटने से बडल गस्से  
में थी। उसने अपनी आँखें छोटी की, अपना मुँह खोला अपने बडल बड़े और  
निगडल जो भी कर रहा था, गीड बडल उर्चिकता से वह सब ऊँख देखा रहा था।  
गिड लंदके के पास एक पत्थर पे बैठ गया और अपने कुनाम का डंजाना करके  
था, जमीन के पास, और पास। आखिरकार निगडल पेडं के नीचे पहुँच गया।

...

Gingilie klatret, men lurte på hvorfor han ikke hørte den  
sedvanlige summingen. "Kanskje bolet er dypt inne!  
treet", tenkte han for seg selv. Han dro seg opp etter en  
annen gren. Men i stedet for bolet, stirret han inn i  
øyene til en leopard! Leopard var veldig sint fordi  
søvnen hennes ble så brått avbrutt. Hun knep igjen  
øyene og åpnet munnen for å vise de veldig lange og  
skarpe tennene sine.






लेकिन, गिंगइल ने आग बुझाई, अपना शिकार का सामान उठाया और घर की तरफ चलने लगा, चिड़िया को नज़रअंदाज़ कर के। गेड गुस्से से चिल्लाया, “विक-टर, विक-टर!” गिंगइल रुका, उसने चिड़िया को घूरा और जोर से हँसा। “तुम्हें थोड़ा शहद चाहिए, चाहिए, मेरे दोस्त? हा! लेकिन सारा काम मैंने किया, और सारे डंक भी खाए। मुझे इस शहद अच्छे शहद को तुम्हारे साथ क्यों बाँटना चाहिए?” फिर वो चला गया। गेड बहुत गुस्से में था! यह कोई तरीका नहीं था उससे व्यवहार करने का! लेकिन वो अपना बदला लेगा।

...

Men Gingile slukket bålet, plukket opp spydet, begynte å gå hjem og overså fuglen. Ngede ropte sint: “SEI-er, SEI-er!” Gingile stoppet og stirret på den lille fuglen og lo høyt. “Du vil ha litt honning, du, lille venn? Ha! Men jeg gjorde alt arbeidet og fikk alle stikkene. Hvorfor skulle jeg dele noe av denne deilige honningen med deg?” Ngede var rasende! Dette var da ingen måte å behandle ham på! Men han skulle få sin hevn.



एक दिन कई हफ़्तों बाद गिंगइल ने फिर गेड की शहद वाली आवाज़ सुनी। उसे स्वादिष्ट शहद याद आया और उसने फिर से चिड़िया का पीछा किया। गिंगइल को जंगल के छोर पर जाकर, गेड एक बड़े से बबूल के पेड़ पर आराम करने के लिए रुका। “आह,” गिंगइल ने सोचा। “छत्ता जरूर इसी पेड़ में है।” उसने जल्दी से छोटी सी आग जलाई और चढ़ना शुरू किया, उसके मुँह में जलती हुई लकड़ी थी। गेड बैठा और सब देखा।

...

En dag flere uker senere hørte Gingile igjen kallet fra Ngede. Han husket den deilige honningen og fulgte ivrig etter fuglen nok en gang. Etter at den hadde ledet Gingile langs skogkanten, stoppet den for å hvile i et stort akasietre. “Å”, tenkte Gingile. “Bolet må være i dette treet.” Han tente raskt det lille bålet sitt og begynte å klatre med den rykende grenen mellom tennene. Ngede satt og ventet.